



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण 1944 (श10)  
(सं0 पटना 558) पटना, मंगलवार, 26 जुलाई 2022

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

30 जून 2022

सं० 10/विधि-16-20/2022-259(10)—स्वास्थ्य विभागीय संकल्प सं०-638(10) दिनांक 13.11.2007 में निहित प्रावधान के आलोक में न्यूनतम मापदण्डों के अनुसार पूर्व में चिन्हित एवं स्वीकृत स्वास्थ्य संबंधी भवन को बनाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति के द्वारा बिहार राज्यपाल के पदनाम से भूमि दान दिया गया है, तो इस परिस्थिति में सरकार द्वारा बनने वाले उक्त भवन का नाम दानकर्ता अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित नाम पर किया जायेगा।

2— तदावलोक में श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पिता—स्व०महाराजी यादव, मौजा—चौदपीपर, थाना—किशनपुर, जिला—सुपौल द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौदपीपर, सुपौल हेतु मौजा/थाना सं०—किशनपुर/60, जिसका खाता नं०—299, 633, खेसरा—3594, 3599, रकवा—42डी0+09डी0=51 डीसमिल जमीन दान स्वरूप महामहिम राज्यपाल, बिहार सरकार के नाम निबंधित कराया गया है। जमीन दाता द्वारा इस अस्पताल का नामकरण महाराजी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौदपीपर, सुपौल करने का अनुरोध किया गया है।

3— उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में असैनिक शल्य चिकित्सक सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा का ज्ञापांक—1172 दिनांक—14.05.2022 के आलोक में नामकरण महाराजी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौदपीपर, सुपौल किया जाता है।

4— यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
राम ईश्वर,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 558-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>